



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1018]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939

No. 1018]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/AGRAHAYANA 30, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1536(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम (1) एवं (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **तेलंगाना** सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का निर्धारण) विनियम, 1966 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात्:-

- (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (पद संख्या का निर्धारण) विनियम, 1966, अनुसूची में, शीर्षक **"तेलंगाना"** के लिए और संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"तेलंगाना"

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ झूटी पद	50
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख)	1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं मुख्य वन्य जीव वाईन	1

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण एवं सतर्कता)	1
मुख्य वन संरक्षक, निजामाबाद	1
मुख्य वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, कवाल टाइगर रिजर्व, निर्मल	1
मुख्य वन संरक्षक, मेडक	1
मुख्य वन संरक्षक/फील्ड निदेशक अमराबाद बाघ रिजर्व, अचमपेट	1
मुख्य वन संरक्षक, हैदराबाद	1
मुख्य वन संरक्षक (एफसीए), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद	1
वन संरक्षक, खम्माम	1
वन संरक्षक, रंगारेड्डी	1
वन संरक्षक, भद्राद्री-कोथागुडेम	1
वन संरक्षक, आदिलाबाद	1
वन संरक्षक, करीमनगर	1
वन संरक्षक (वारंगल)	1
वन संरक्षक, अनुसंधान और विकास मण्डल, हैदराबाद	1
वन संरक्षक, महबूबनगर	1
वन संरक्षक, राज्य व्यापार मंडल, हैदराबाद	1
वन संरक्षक/निदेशक, चिडिया घर पार्क, हैदराबाद	1
वन संरक्षक, उत्पादन, पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद	1
जिला वन अधिकारी, आदिलाबाद	1
जिला वन अधिकारी, कोमरभीम	1
जिला वन अधिकारी, निर्मल	1
जिला वन अधिकारी, कोथागुडेम	1
जिला वन अधिकारी, खम्माम	1
जिला वन अधिकारी, निजामाबाद	1
जिला वन अधिकारी, नगरकर्नूल	1
जिला वन अधिकारी, हैदराबाद	1
जिला वन अधिकारी, राजांना	1
जिला वन अधिकारी, जयशंकर	1
जिला वन अधिकारी, सिदीपेट	1

	जिला वन अधिकारी, महबूबाबाद	1
	जिला वन अधिकारी, रांगारेड्डी	1
	जिला वन अधिकारी, मचेरियल	1
	जिला वन अधिकारी, कमारेड्डी	1
	जिला वन अधिकारी, नालगोंडा	1
	वन जेनेटेसिस्ट, वारंगल	1
	राज्य वन वर्धन विज्ञान, हैदराबाद	1
	क्यूरेटर, नेहरू चिड़ियाघर पार्क, हैदराबाद	1
	संयुक्त निदेशक, तेलंगाना राज्य वन अकादमी, दुलापल्ली	1
	जिला वन अधिकारी, सांगरेड्डी	1
	जिला वन अधिकारी, महबूबनगर	1
	जिला वन अधिकारी, विकराबाद	1
	जिला वन अधिकारी, वारंगल (शहरी) और जनगांव	1
	वन उप संरक्षक, तेलंगाना राज्य वन अकादमी, दुल्लापल्ली	1
	वन उप संरक्षक (वन्य जीव), ओओ पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद।	1
	वन उप संरक्षक/संयुक्त निदेशक, तेलंगाना वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मुलुग जिला, मेडक	1
1.	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	50
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षित उपरोक्त मद 1 के 20% से अधिक नहीं	10
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति आरक्षित उपरोक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	12
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपरोक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	1
5.	आरक्षण एवं कनिष्ठ आरक्षी पदों को छोड़कर उपरोक्त के मद 1 16.5%से अधिक नहीं	8
6.	भारतीय वन सेवा के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (भर्ती) नियम 1966 के मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं	24
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6)	57
	कुल प्राधिकृत पद संख्या (आइटम 6 + 7 ऊपर)	81"

[सं. 16016/02/2017-अ.भा.से-II (क)]

ज्योत्स्ना गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तेलंगाना के आईएफएस संवर्ग की कुल अधिकृत पद संख्या 65 थी।

टिप्पणी 2 : प्रधान विनियम भारतीय वन सेवा (पद संख्या का निर्धारण) विनियम, 1966 में दिनांक 31.10.1966 के सा.का.नि. 1072 द्वारा अधिसूचना संख्या 6/1/66-अ.भा.से.(IV) द्वारा अधिसूचित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा बाद में संशोधित किए गए थे।

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	1673	30.10.66	47	276(अ)	2.6.81
2	17	7.1.67	48	386(अ)	9.6.81
3	653	6.5.67	49	602(अ)	16.11.81
4	654	6.5.67	50	604(अ)	17.11.81
5	689	13.5.67	51	653(अ)	10.12.81
6	1083	8.6.68	52	657(अ)	11.12.81
7	1887	9.8.69	53	294(अ)	1.4.82
8	80	17.1.70	54	354(अ)	26.4.82
9	485	21.3.70	55	356(अ)	27.4.82
10	545	4.4.70	56	778(अ)	31.5.82
11	1802	24.10.70	57	530(अ)	20.8.82
12	135	24.1.75	58	24अ	12.1.83
13	136	24.1.71	59	126(अ)	28.2.85
14	665	8.5.71	60	308(अ)	26.3.85
15	45(अ)	20.1.72	61	327अ	29.3.85
16	47(अ)	20.1.72	62	489अ	12.6.85
17	48(अ)	20.1.72	63	266	12.4.86
18	478(अ)	4.12.72	64	654	30.8.86
19	192(अ)	2.4.73	65	763.	20.9.86
20	321(अ)	27.6.73	66	798.	27.9.86
21	391(अ)	10.8.73	67	796	27.9.86
22	142	24.1.71	68	835	4.10.86
23	28(अ)	8.5.71	69	837	4.10.86
24	273(अ)	11.1.72	70	880	18.10.86
25	300(अ)	20.1.72	71	164	14.3.87
26	812	29.4.72	72	407	30.5.87
27	2227	16.8.75	73	619	15.3.87
28	71	17.1.76	74	802	31.10.87
29	407(अ)	16.6.76	75	826	7.11.87
30	1064	24.7.76	76	835	14.10.87
31	444 (अ)	6.7.76	77	836	14.11.87
32	750 (अ)	3.8.76	78	432अ	6.4.88
33	93 (अ)	26.2.77	79	546अ	4.5.88
34	631 (अ)	5.10.77	80	834अ	3.8.88
35	13 (अ)	6.1.78	81	352अ	10.3.89
36	360(अ)	13.7.78	82	553अ	16.5.89
37	436(अ)	29.8.78	83	455	1.7.89
38	486(अ)	25.8.80	84	832	11.11.89
39	562(अ)	30.9.80	85	916	16.12.89
40	626अ	3.11.80	86	933	30.12.89
41	631अ	4.11.80	87	590	22.9.90
42	21अ	17.1.81	88	603	29.9.90
43	31अ	23.1.81	89	728	8.12.90
44	84(अ)	27.2.81	90	730	8.12.90
45	456(अ)	9.5.81	91	125(अ)	5.3.91
46	360(अ)	23.5.81	92	246	13.4.91

93	473	24.8.91	141	566(अ)	15.09.2006
94	527	14.9.91	142	724(अ)	23.11.2006
95	565	5.10.91	143	703(अ)	12.08.2007
96	584	19.10.91	144	765(अ)	12.12.2007
97	538(अ)	6.8.93	145	609(अ)	26.08.2008
98	685(अ)	4.11.93	146	109(अ)	21.02.2008
99	687(अ)	4.11.93	147	610(अ)	26.08.2008
100	514	22.10.94	148	716(अ)	03.10.2008
101	513	22.10.94	149	748(अ)	21.10.2008
102	321अ	31.3.95	150	190(अ)	24.03.2009
103	213	29.4.95	151	193(अ)	24.03.2009
104	278	10.6.95	152	194(अ)	24.03.2009
105	264	6.6.95	153	498(अ)	07.07.2009
106	339	22.7.95	154	500(अ)	07.07.2009
107	375	12.8.95	155	502(अ)	07.07.2009
108	480	18.11.95	156	504(अ)	07.07.2009
109	479	18.11.95	157	506(अ)	07.07.2009
110	503	2.12.95	158	503(अ)	07.07.2009
111	537	9.12.95	159	905(अ)	18.12.2009
112	75अ	5.2.96	160	907(अ)	18.12.2009
113	77अ	5.2.96	161	909(अ)	18.12.2009
114	231	8.6.96	162	911(अ)	18.12.2009
115	233	8.6.96	163	406(अ)	14.05.2010
116	589अ	26.12.96	164	673(अ)	11.08.2010
117	587अ	26.12.96	165	143(अ)	16.03.2012
118	585अ	26.12.96	166	145(अ)	16.03.2012
119	17अ	17.1.97	167	216(अ)	16.03.2012
120	413	20.12.97	168	218(अ)	16.03.2012
121	741अ	31.12.97	169	672(अ)	06.09.2012
122	40	29.1.98	170	609(अ)	06.09.2013
123	617अ	14.1.98	171	611(अ)	06.09.2013
124	372	10.12.99	172	651(अ)	24.09.2013
125	374	10.12.99	173	515(अ)	18.07.2014
126	824अ	21.10.2000	174	103(अ)	16.02.2015
127	827अ	21.10.2000	175	520(अ)	30.06.2015
128	830अ	21.10.2000	176	530(अ)	02.07.2015
129	141	27.04.2002	177	708(अ)	16.09.2015
130	143	27.04.2002	178	792(अ)	12.08.2016
131	139	27.04.2002	179	1104अ	30.11.2016
132	145	27.04.2002	180	1106अ	30.11.2016
133	147	27.04.2002	181	171(अ)	27.02.2017
134	372	21.09.2002	182	179(अ)	28.02.2017
135	173	26.04.2003	183	205(अ)	08.03.2017
136	34 (अ)	24.01.2006	184	261 (अ)	17.03.2017
137	287(अ)	16.05.2006	185	1002 (अ)	08.08.2017
138	289 (अ)	16.05.2006	186	1035(अ)	18.08.2017
139	562(अ)	15.09.2006	187	1451(अ)	27.11.2017
140	564(अ)	15.09.2006			

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. 1536(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Government of Telangana hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely:—

1. (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, in the Schedule, for the heading "Telangana" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“Telangana

SENIOR DUTY POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT		50
Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)		1
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) & Chief Wildlife Warden		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) & Nodal Officer for Forest conservation Act		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Protection & Vigilance)		1
Chief Conservator Forests, Nizamabad		1
Chief Conservator Forests /Field Director, Kawal Tiger Reserve, Nirmal		1
Chief Conservator Forests, Medak		1
Chief Conservator Forests / Field Director, Amarabad Tiger Reserve, Achampet		1
Chief Conservator Forests, Hyderabad		1
Chief Conservator Forests (FCA), O/o PCCF (HoFF), Telangana, Hyderabad		1
Conservator of Forests, Khammam		1
Conservator of Forests, Rangareddy		1
Conservator of Forests, Bhadradi-Kothagudem		1
Conservator of Forests, Adilabad		1
Conservator of Forests, Karimnagar		1
Conservator of Forests (Warangal)		1
Conservator of Forests, Research and Development Circle, Hyderabad		1
Conservator of Forests, Mahabubnagar		1
Conservator of Forests, State Trading Circle, Hyderabad		1
Conservator of Forests/ Director, Zoo Parks, Hyderabad		1
Conservator of Forests, Production, O/o PCCF (HoFF), Telangana, Hyderabad		1
District Forest Officer, Adilabad		1

	District Forest Officer, Komarambheem	1
	District Forest Officer, Nirmal	1
	District Forest Officer, Kothagudem	1
	District Forest Officer, Khammam	1
	District Forest Officer, Nizamabad	1
	District Forest Officer, Nagarkarnool	1
	District Forest Officer, Hyderabad	1
	District Forest Officer, Rajanna	1
	District Forest Officer, Jayashankar	1
	District Forest Officer, Siddipet	1
	District Forest Officer, Mahabubabad	1
	District Forest Officer, Ranga Reddy	1
	District Forest Officer, Mancherial	1
	District Forest Officer, Kamareddy	1
	District Forest Officer, Nalgonda	1
	Forest Geneticist, Warangal	1
	State Silviculturist, Hyderabad	1
	Curator, Nehru Zoo Park, Hyderabad	1
	Joint Director, Telangana State Forest Academy, Dulapally	1
	District Forest Officer, Sangareddy	1
	District Forest Officer, Mahabubnagar	1
	District Forest Officer, Vikarabad	1
	District Forest Officer, Warangal (Urban) and Jangoan	1
	Deputy Conservator of Forests, Telangana State Forest Academy, Dullapally	1
	Deputy Conservator of Forests (Wildlife), O/o PCCF (HoFF), Telangana, Hyderabad.	1
	Deputy Conservator of Forests/ Joint Director, Telangana Forest College & Research Institute, Mulug., Medak District	1
1.	Total Senior Duty Posts	50
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 20% of Item 1 above	10
3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above	12
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above	1
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	8
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966 not exceeding 33 1/3 % of Item 1, 2, 3 and 4 above	24
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6)	57
	Total Authorised Strength (Item 6+7 above)	81

[F. No.16016/02/2017-AIS-II (A)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note 1: Prior to the issue of this Notification, the total Authorized Strength of the IFS cadre of Telangana was 65.

Note 2: The Principal regulations were notified *vide* notification No.6/1/66-AIS (IV), dated 31-10-1966 *vide* G.S.R. No. 1072 in the Indian Forest Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1966, and subsequently been amended, *vide* notifications given below:-

Sl. No.	GSR No.	Date of Publication	Sl. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1673	30.10.66	54.	354(E)	26.4.82
2	17	7.1.67	55.	356(E)	27.4.82
3	653	6.5.67	56.	778(E)	31.5.82
4	654	6.5.67	57.	530(E)	20.8.82
5	689	13.5.67	58.	24E	12.1.83
6	1083	8.6.68	59.	126(E)	28.2.85
7	1887	9.8.69	60.	308(E)	26.3.85
8	80	17.1.70	61.	327E	29.3.85
9	485	21.3.70	62.	489E	12.6.85
10	545	4.4.70	63.	266	12.4.86
11	1802	24.10.70	64.	654	30.8.86
12	135	24.1.75	65.	763.	20.9.86
13	136	24.1.71	66.	798.	27.9.86
14	665	8.5.71	67.	796	27.9.86
15	45(E)	20.1.72	68.	835	4.10.86
16	47(E)	20.1.72	69.	837	4.10.86
17	48(E)	20.1.72	70.	880	18.10.86
18.	478(E)	4.12.72	71.	164	14.3.87
19.	192(E)	2.4.73	72.	407	30.5.87
20.	321(E)	27.6.73	73.	619	15.3.87
21.	391(E)	10.8.73	74.	802	31.10.87
22.	142	24.1.71	75.	826	7.11.87
23.	28(E)	8.5.71	76.	835	14.10.87
24.	273(E)	11.1.72	77.	836	14.11.87
25.	300(E)	20.1.72	78.	432E	6.4.88
26.	812	29.4.72	79.	546E	4.5.88
27.	2227	16.8.75	80.	834E	3.8.88
28.	71	17.1.76	81.	352E	10.3.89
29.	407(E)	16.6.76	82.	553E	16.5.89
30	1064	24.7.76	83.	455	1.7.89
31.	444 (E)	6.7.76	84.	832	11.11.89
32.	750 (E)	3.8.76	85.	916	16.12.89
33.	93 (E)	26.2.77	86.	933	30.12.89
34.	631 (E)	5.10.77	87.	590	22.9.90
35.	13 (E)	6.1.78	88.	603	29.9.90
36.	360(E)	13.7.78	89.	728	8.12.90
37.	436(E)	29.8.78	90.	730	8.12.90
38.	486(E)	25.8.80	91.	125(E)	5.3.91
39.	562(E)	30.9.80	92.	246	13.4.91
40.	626E	3.11.80	93.	473	24.8.91
41.	631E	4.11.80	94.	527	14.9.91
42.	21E	17.1.81	95.	565	5.10.91
43.	31E	23.1.81	96.	584	19.10.91
44.	84(E)	27.2.81	97.	538(E)	6.8.93
45.	456(E)	9.5.81	98.	685(E)	4.11.93
46.	360(E)	23.5.81	99.	687(E)	4.11.93
47.	276(E)	2.6.81	100.	514	22.10.94
48.	386(E)	9.6.81	101.	513	22.10.94
49.	602(E)	16.11.81	102.	321E	31.3.95
50.	604(E)	17.11.81	103.	213	29.4.95
51.	653(E)	10.12.81	104.	278	10.6.95
52.	657(E)	11.12.81	105.	264	6.6.95
53.	294(E)	1.4.82	106.	339	22.7.95

107.	375	12.8.95	148	716(E)	03.10.2008
108.	480	18.11.95	149	748(E)	21.10.2008
109.	479	18.11.95	150	190(E)	24.03.2009
110.	503	2.12.95	151	193(E)	24.03.2009
111	537	9.12.95	152	194(E)	24.03.2009
112	75E	5.2.96	153	498(E)	07.07.2009
113	77E	5.2.96	154	500(E)	07.07.2009
114	231	8.6.96	155	502(E)	07.07.2009
115	233	8.6.96	156	504(E)	07.07.2009
116	589E	26.12.96	157	506(E)	07.07.2009
117	587E	26.12.96	158	503(E)	07.07.2009
118	585E	26.12.96	159	905(E)	18.12.2009
119	17E	17.1.97	160	907(E)	18.12.2009
120	413	20.12.97	161	909(E)	18.12.2009
121	741E	31.12.97	162	911(E)	18.12.2009
122	40	29.1.98	163	406(E)	14.05.2010
123	617E	14.1.98	164	673(E)	11.08.2010
124	372	10.12.99	165	143(E)	16.03.2012
125	374	10.12.99	166	145(E)	16.03.2012
126	824E	21.10.2000	167	216(E)	16.03.2012
127	827E	21.10.2000	168	218(E)	16.03.2012
128	830E	21.10.2000	169	672(E)	06.09.2012
129	141	27.04.2002	170	609(E)	06.09.2013
130	143	27.04.2002	171	611(E)	06.09.2013
131	139	27.04.2002	172	651(E)	24.09.2013
132	145	27.04.2002	173	515(E)	18.07.2014
133	147	27.04.2002	174	103(E)	16.02.2015
134	372	21.09.2002	175	520(E)	30.06.2015
135	173	26.04.2003	176	530(E)	02.07.2015
136	34 (E)	24.01.2006	177	708(E)	16.09.2015
137	287(E)	16.05.2006	178	792(E)	12.08.2016
138	289 (E)	16.05.2006	179	1104E	30.11.2016
139	562(E)	15.09.2006	180	1106E	30.11.2016
140	564(E)	15.09.2006	181	171(E)	27.02.2017
141	566(E)	15.09.2006	182	179(E)	28.02.2017
142	724(E)	23.11.2006	183	205(E)	08.03.2017
143	703(E)	12.08.2007	184	261 (E)	17.03.2017
144	765(E)	12.12.2007	185	1002 (E)	08.08.2017
145	609(E)	26.08.2008	186	1035(E)	18.08.2017
146	109(E)	21.02.2008	187	1451(E)	27.11.2017
147	610(E)	26.08.2008			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1537(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, **तेलंगाना** सरकार के परामर्श से इसके द्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (i) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2017 कहा जाएगा.
 - (ii) वे सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016:-

(क) सारणी में अनुसूची-II में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर वेतन वाले क पदों में प्रथम स्तम्भ में "तेलंगाना" प्रविष्टि और द्वितीय स्तम्भ में समानरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"तेलंगाना"

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स में 15 स्तर
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	वेतन मैट्रिक्स में 15 स्तर
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम	वेतन मैट्रिक्स में 15 स्तर
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण एवं सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स में 15 स्तर
मुख्य वन संरक्षक, निजामाबाद	वेतन मैट्रिक्स में 14 स्तर
मुख्य वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, कवाल टाइगर रिजर्व, निर्मल	वेतन मैट्रिक्स में 14 स्तर
मुख्य वन संरक्षक, मेडक	वेतन मैट्रिक्स में 14 स्तर
मुख्य वन संरक्षक/फील्ड निदेशक, अमरावाद बाघ रिजर्व, अचमपेट	वेतन मैट्रिक्स में 14 स्तर
मुख्य वन संरक्षक, हैदराबाद	वेतन मैट्रिक्स में 14 स्तर
मुख्य वन संरक्षक (एफसीए), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद	वेतन मैट्रिक्स में 14 स्तर
वन संरक्षक, खम्माम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, रंगारेड्डी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, भद्राद्रि-कोथागुडेम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, आदिलाबाद	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, करीमनगर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक (वारंगल)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, अनुसंधान और विकास मण्डल, हैदराबाद	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, महबूबनगर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, राज्य व्यापार मंडल, हैदराबाद	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक/निदेशक, चिड़िया घर पार्क, हैदराबाद	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A
वन संरक्षक, उत्पादन, पीसीसीएफ (एचओएफएफ), तेलंगाना, हैदराबाद	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13A "

(ख) अनुसूची-II ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में तेलंगाना प्रविष्टि के लिए समय वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

जिला वन अधिकारी, आदिलाबाद
जिला वन अधिकारी, कोमरभीम
जिला वन अधिकारी, निर्मल
जिला वन अधिकारी, कोथागुडेम
जिला वन अधिकारी, खम्माम
जिला वन अधिकारी, निजामाबाद

जिला वन अधिकारी, नगरकर्नूल
जिला वन अधिकारी, हैदराबाद
जिला वन अधिकारी, राजांना
जिला वन अधिकारी, जयशंकर
जिला वन अधिकारी, सिदीपेट
जिला वन अधिकारी, महबूबाबाद
जिला वन अधिकारी, रांगारेड्डी
जिला वन अधिकारी, मचेरियल
जिला वन अधिकारी, कमरेड्डी
जिला वन अधिकारी, नालगोंडा
वन जेनेटिक्स, वारंगल
राज्य वन वर्धन विज्ञान, हैदराबाद
क्यूरेटर, नेहरू चिड़ियाघर पार्क, हैदराबाद
संयुक्त निदेशक, तेलंगाना राज्य वन अकादमी, दुलापल्ली
जिला वन अधिकारी, सांगरेड्डी
जिला वन अधिकारी, महबूबनगर
जिला वन अधिकारी, विकराबाद
जिला वन अधिकारी, वारंगल (शहरी) और जनगांव
वन उप संरक्षक, तेलंगाना राज्य वन अकादमी, दुल्लापल्ली
वन उप संरक्षक (वन जीवन), ओओ पीसीसीएफ (एचओएफएफ), तेलंगाना, हैदराबाद ।
वन उप संरक्षक/संयुक्त निदेशक, तेलंगाना वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मुलुग जिला, मेंडक”

[सं. 16016/02/2017-अ.भा.से-II (ख)]

ज्योत्स्ना गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम भारत के असाधारण राजपत्र के दिनांक 28 सितम्बर, 2016 की संख्या सा.का.नि. 924(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित सा.का.नि. और तारीख द्वारा अधिसूचित किए गए थे :-

क्र. सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1.	1105अ	30.11.2016
2.	1107	30.11.2016
3.	172 अ	27.02.2017
4.	180 अ	28.02.2017
5.	206 अ	08.03.2017
6.	262 अ	17.03.2017
7.	1003(अ)	08.08.2017
8.	1036(अ)	18.08.2017
9.	1452(अ)	27.11.2017

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. 1537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the Government of Telangana hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016 namely:-

1. (i) These rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 2017.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016:-

(a) In Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table, for the entry “Telangana” appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:-

“TELANGANA

Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)	Level 17 in the Pay Matrix
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) & Chief Wildlife Warden	Level 16 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)	Level 15 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	Level 15 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) & Nodal Officer for Forest conservation Act	Level 15 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Protection & Vigilance)	Level 15 in the Pay Matrix
Chief Conservator Forests, Nizamabad	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator Forests / Field Director, Kawal Tiger Reserve, Nirmal	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator Forests, Medak	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator Forests / Field Director, Amarabad Tiger Reserve, Achampet	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator Forests, Hyderabad	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator Forests (FCA), O/o PCCF (HoFF), Telangana, Hyderabad	Level 14 in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Khammam	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Rangareddy	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Bhadradi- Kothagudem	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Adilabad	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Karimnagar	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Warangal)	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Research and Development Circle, Hyderabad	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Mahabubnagar	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, State Trading Circle, Hyderabad	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests/ Director, Zoo Parks, Hyderabad	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Production, O/o PCCF (HoFF), Telangana, Hyderabad	Level 13A in the Pay Matrix”

(b) In Schedule-II B, Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry Telangana, the following shall be substituted, namely:-

“District Forest Officer, Adilabad
District Forest Officer, Komarambheem
District Forest Officer, Nirmal
District Forest Officer, Kothagudem
District Forest Officer, Khammam
District Forest Officer, Nizamabad
District Forest Officer, Nagarkarnool
District Forest Officer, Hyderabad
District Forest Officer, Rajanna
District Forest Officer, Jayashankar
District Forest Officer, Siddipet
District Forest Officer, Mahabubabad
District Forest Officer, Ranga Reddy
District Forest Officer, Mancherial
District Forest Officer, Kamareddy
District Forest Officer, Nalgonda
Forest Geneticist, Warangal
State Silviculturist, Hyderabad
Curator, Nehru Zoo Park, Hyderabad
Joint Director, Telangana State Forest Academy, Dulapally
District Forest Officer, Sangareddy
District Forest Officer, Mahabubnagar
District Forest Officer, Vikarabad
District Forest Officer, Warangal (Urban) and Jangoan
Deputy Conservator of Forests, Telangana State Forest Academy, Dullapally
Deputy Conservator of Forests (Wildlife), O/o PCCF (HoFF), Telangana, Hyderabad.
Deputy Conservator of Forests/ Joint Director, Telangana Forest College & Research Institute, Mulug., Medak District”

[F. No.16016/02/2017-AIS-II (B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 924(E) dated the 28th September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:-

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	1105E	30.11.2016
2.	1107	30.11.2016
3.	172 E	27.02.2017
4.	180 E	28.02.2017
5.	206 E	08.03.2017
6.	262 E	17.03.2017
7.	1003(E)	08.08.2017
8.	1036(E)	18.08.2017
9.	1452(E)	27.11.2017